



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2018/अग्रहायण 05, 1940

No. 836]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2018/AGARHAYANA 05, 1940

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1137(अ).**—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

- (i) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।  
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

**"तमिलनाडु**

<b>तमिलनाडु राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद</b>		<b>150</b>
पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु		<b>1</b>
अध्यक्ष, टीएनयूएसआरबी, चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिदेशक/निदेशक, वीएंडएसी, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना		<b>1</b>
पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, नागरिक आपूर्ति, सीआईडी चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, समाजिक न्याय एवं मानव अधिकार चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रवर्तन चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, सीआईडी, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस महानिदेशक, तटीय सुरक्षा, समूह, चेन्नई		<b>1</b>
अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी चेन्नई पुलिस		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – उत्तरी जोन चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – दक्षिणी जोन, मदुरई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी जोन, कोयंबटूर		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – केंद्रीय जोन, त्रिची		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी, चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – तकनीकी सेवा		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण, चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – सशस्त्र पुलिस, चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – सदस्य सचिव, टीएनयूएसआरबी		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – प्रशा., चेन्नई		<b>1</b>
पुलिस महानिरीक्षक – मुख्यालय, चेन्नई		<b>1</b>

पुलिस महानिरीक्षक - ईओडब्ल्यू चेन्नई	1
पुलिस महानिरीक्षक - वीएंडएसी, विशेष जांच सेल, चेन्नई	1
संयुक्त निदेशक, वीएंडएसी, चेन्नई	1
अपर 'काॅप', दक्षिणी चेन्नई पुलिस	1
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना (आंतरिक सुरक्षा)	1
पुलिस आयुक्त, तिरुनेलवेल सिटी	1
पुलिस आयुक्त, सलेम सिटी	1
पुलिस आयुक्त, कोयंबटूर सिटी	1
पुलिस आयुक्त, त्रिची सिटी	1
अपर पुलिस आयुक्त, ट्राफिक, चेन्नई सिटी	1
पुलिस महानिरीक्षक, सीओपी, त्रिप्पुर सिटी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - कंचीपुरम रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - वेल्लोर रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - कोयंबटूर रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - त्रिची रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - मदुरई रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - रामनाथपुरम रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - तिरुनेलवेली रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - विल्लुपुरम रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - तंजावुर रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - डिंडीगुल रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सलेम रेंज	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिणी चेन्नई	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, उत्तरी चेन्नई	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी चेन्नई पुलिस	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, उत्तरी, चेन्नई पुलिस	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सीआईडी आसूचना चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सीबी सीआईडी, चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन, चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - (मुख्यालय) चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण, चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - न्याय एवं मानव अधिकार, चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस, चेन्नई	1
पुलिस आयुक्त - मदुरई सिटी	1
उप निदेशक - सतर्कता एवं एंटी, चेन्नई	1

उप पुलिस महानिरीक्षक – तकनीकी सेवा चेन्नई	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे, चेन्नई	1
उप महानिरीक्षक/जेसीओपी, कानून एवं व्यवस्था पश्चिम, जीसीपी,	1
पुलिस अधीक्षक – कांचीपुरम	1
पुलिस अधीक्षक – तिरुवलूर	1
पुलिस अधीक्षक – विल्लुपुरम	1
पुलिस अधीक्षक – कुडडलोर	1
पुलिस अधीक्षक – त्रिरुअन्नामलाई	1
पुलिस अधीक्षक – वेल्लोर	1
पुलिस अधीक्षक – सलेम	1
पुलिस अधीक्षक – नामाक्कल	1
पुलिस अधीक्षक – धारमपुरी	1
पुलिस अधीक्षक – कोयंबटूर	1
पुलिस अधीक्षक – ईरोडे	1
पुलिस अधीक्षक – दिनीलगिरी	1
पुलिस अधीक्षक – त्रिचरापल्ली	1
पुलिस अधीक्षक – पुदुकोटाई	1
पुलिस अधीक्षक – करूर	1
पुलिस अधीक्षक – पेराम्बुदुर	1
पुलिस अधीक्षक – तंजावुर	1
पुलिस अधीक्षक – नागापट्टिनम	1
पुलिस अधीक्षक – तिरुवरूर	1
पुलिस अधीक्षक – मदुरई	1
पुलिस अधीक्षक – विरुधुनगर	1
पुलिस अधीक्षक – डिंडीगुल	1
पुलिस अधीक्षक – थेनी	1
पुलिस अधीक्षक – रामानाथपुरम	1
पुलिस अधीक्षक – शिवांगई	1
पुलिस अधीक्षक – तिरुनेलवेली	1
पुलिस अधीक्षक – तूथुकुडी	1
पुलिस अधीक्षक – कन्याकुमारी	1
पुलिस अधीक्षक – कृष्णागिरि	1
उप पुलिस आयुक्त – कानून एवं व्यवस्था, मदुरई सिटी	1
उप पुलिस आयुक्त – कानून एवं व्यवस्था कोयंबटूर सिटी	1
उप पुलिस आयुक्त – कानून एवं व्यवस्था सलेम सिटी	1

उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था त्रिची सिटी	1
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था तिरुनेलवेली सिटी	1
उप पुलिस आयुक्त - सेंट थॉमस माऊंट, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - टी. नगर, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - अन्ना नगर, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - त्रिपलिकेन, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - अदयार चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - पुल्लिन्थोप, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - वाशरमैन पेड, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - उत्तरी यातायात, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - दक्षिणी यातायात, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - फ्लावर बाजार, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - (मुख्यालय) चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त - सुरक्षा-चेन्नई पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - आंतरिक अनुभाग चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, सीआईडी चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - सीबीसीआईडी-1, चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, सीआईडी, सुरक्षा-1, चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक, एनआईबी, सीआईडी, चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - नागरिक आपूर्ति	1
पुलिस अधीक्षक - 'क्यू' शाखा, सीआईडी, चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - सुरक्षा शाखा-II, सीआईडी चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, पश्चिमी रेंज चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, केंद्रीय रेंज चेन्नई	1
प्रधान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, चेन्नई	1
कमांडेंट्स, टीएसपी बैटालियन	7
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, चेन्नई	1
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, चेन्नई	1
पुलिस अधीक्षक - आर्यालुर	1
पुलिस अधीक्षक - तिरुप्पुर	1
उप पुलिस आयुक्त - मिलापोर	1
उप पुलिस आयुक्त, पूर्वी यातायात, चेन्नई पुलिस	1
पुलिस अधीक्षक - रेलवे चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त, यातायात, पश्चिम, चेन्नई पुलिस	1
उप पुलिस आयुक्त - किलपौक, चेन्नई पुलिस, चेन्नई	1
उप पुलिस आयुक्त, अपराध, कोयंबटूर सिटी	1

	उप पुलिस आयुक्त, माधवराम, चेन्नई पुलिस	1
	उप पुलिस आयुक्त – अंबाटूर	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, चेन्नई पुलिस	1
	उप पुलिस आयुक्त – मुख्यालय, कोयंबटूर सिटी	1
	उप पुलिस आयुक्त – यातायात, कोयंबटूर सिटी	1
	उप पुलिस आयुक्त – मुख्यालय, मदुराई सिटी	1
	उप पुलिस आयुक्त – यातायात, मदुराई सिटी	1
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	150
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं)	60
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं)	37
4.	प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं)	05
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपरोक्त के मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	24
6.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपरोक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 331/3 % से अधिक नहीं)	84
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	192
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	276''

[फा. सं. 11052/02/2018-एआईएस-II(क)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

**टिप्पणी (1):** इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, तमिलनाडु के संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 263 थी।

**टिप्पणी (2):** प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, तमिलनाडु संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था: -

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	350(अ)	25.6.1975
2.	1369	25.9.1976
3.	252(अ)	17.03.1979
4.	895	06.09.1980
5.	344(अ)	20.04.1983
6.	335	31.03.1984
7.	1016	29.09.1984
8.	446	04.06.1988
9.	421	17.06.1989
10.	884	02.12.1989
11.	221	16.05.1992

12.	396(अ)	02.04.1994
13.	500	08.10.1994
14.	320(अ)	31.03.1995
15.	740(अ)	31.12.1997
16.	100(अ)	27.02.1998
17.	228	09.06.2000
18.	3599(अ)	11.05.2007
19.	192(अ)	24.03.2009
20.	627(अ)	23.07.2010

## Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

**G.S.R. 1137(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Tamil Nadu**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely:—

- These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2018.
  - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Tamil Nadu**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

#### “Tamil Nadu

<b>Senior Duty Posts under the State Government of Tamil Nadu</b>		<b>150</b>
Director General of Police, Tamil Nadu		1
Chairman, TNUSRB, Chennai		1
Director General of Police/Director, V&AC, Chennai		1
Additional Director General of Police, Intelligence		1
Commissioner of Police, Greater Chennai		1
Additional Director General of Police, Crime Chennai		1
Additional Director General of Police, EOW Chennai		1
Additional Director General of Police, Civil Supplies, CID Chennai		1
Additional Director General of Police, Social Justice & Human Rights, Chennai		1
Additional Director General of Police,, Law & Order, Chennai		1
Additional Director General of Police, Administration, Chennai		1
Additional Director General of Police, Enforcement Chennai		1
Additional Director General of Police, Headquarters, Chennai		1
Additional Director General of Police, Crime Branch, CID, Chennai		1
Additional Director General of Police, Armed Police, Chennai		1
Additional Director General of Police, Coastal Security, Group, Chennai		1
Additional Commissioner of Police, North Chennai Police		1
Inspector General of Police-North Zone Chennai		1
Inspector General of Police-South Zone, Madurai		1
Inspector General of Police, West Zone, Coimbatore		1
Inspector General of Police- Central Zone, Trichy		1

Inspector General of Police- Intelligence Chennai	1
Inspector General of Police, Crime, Chennai	1
Inspector General of Police, CBCID, Chennai	1
Inspector General of Police-Technical Services	1
Inspector General of Police- Training Chennai	1
Inspector General of Police- Armed Police, Chennai	1
Inspector General of Police- Member Secretary, TNUSRB	1
Inspector General of Police- Railways	1
Inspector General of Police- Admn., Chennai	1
Inspector General of Police- HQrs., Chennai	1
Inspector General of Police-EOW Chennai	1
Inspector General of Police- V&AC, Special Investigation Cell, Chennai	1
Joint Director, V&AC, Chennai	1
Addl. COP, South Chennai Police	1
Inspector General of Police- Intelligence (Internal Security)	1
Commissioner of Police, Tirunelveli City	1
Commissioner of Police, Salem City	1
Commissioner of Police, Coim batore City	1
Commissioner of Police, Trichy City	1
Additional Commissioner of Police, Traffic, Chennai City	1
IGP, COP, Trippur City	1
Deputy Inspector General of Police- Kancheepuram Range	1
Deputy Inspector General of Police-Vellore Range	1
Deputy Inspector General of Police- Coimbatore Range	1
Deputy Inspector General of Police- Trichy Range	1
Deputy Inspector General of Police-Madurai Range	1
Deputy Inspector General of Police-Ramanathapuram Range	1
Deputy Inspector General of Police-Tirunelveli Range	1
Deputy Inspector General of Police-Villupuram Range	1
Deputy Inspector General of Police- Thanjavur Range	1
Deputy Inspector General of Police-Dindigul Range	1
Deputy Inspector General of Police- Salem Range	1
Jt. Commissioner of Police, South Chennai	1
Jt. Commissioner of Police, North Chennai	1
Jt. Commissioner of Police, East, Chennai Police	1
Jt. Commissioner of Police, Traffic, North, Chennai Police	1
Deputy Inspector General of Police- CID Intelligence Chennai	1
Deputy Inspector General of Police- CB CID, Chennai	1
Deputy Inspector General of Police- Administration, Chennai	1
Deputy Inspector General of Police-(HQrs.) Chennai	1



	Deputy Inspector General of Police- Training, Chennai	1
	Deputy Inspector General of Police- Justice & Human Rights, Chennai	1
	Deputy Inspector General of Police- Armed Police, Chennai	1
	Commissioner of Police-Madurai City	1
	Deputy Director-Vigilance & Anti, Chennai	1
	Deputy Inspector General of Police-Technical Services Chennai	1
	Deputy Inspector General of Police- Railways, Chennai	1
	Deputy Inspector General /JCOP, Law & Order West, GCP,	1
	Superintendent of police- Kancheepuram	1
	Superintendent of police- Thiruvalur	1
	Superintendent of police- Villupuram	1
	Superintendent of police- Cuddalore	1
	Superintendent of police- Tiruvannamalai	1
	Superintendent of police- Vellore	1
	Superintendent of police- Salem	1
	Superintendent of police- Namakkal	1
	Superintendent of police- Dharampuri	1
	Superintendent of police- Coimbatore	1
	Superintendent of police- Erode	1
	Superintendent of police- The Nilgiris	1
	Superintendent of police- Tirucharapalli	1
	Superintendent of police- Pudukottai	1
	Superintendent of police- Karur	1
	Superintendent of police- Perambalur	1
	Superintendent of police- Thanjavur	1
	Superintendent of police- Nagapattinam	1
	Superintendent of police-Tiruvarur	1
	Superintendent of police- Madurai	1
	Superintendent of police- Virudhunagar	1
	Superintendent of police- Dindigul	1
	Superintendent of police- Theni	1

Superintendent of police- Ramanathapuram	1
Superintendent of police- Sivagangai	1
Superintendent of police- Tirunelveli	1
Superintendent of police- Toothukudi	1
Superintendent of police- Kanyakumari	1
Superintendent of police- Krishnagiri	1
Deputy Commissioner of Police- L & O Madurai City	1
Deputy Commissioner of Police- L & O Coimbatore City	1
Deputy Commissioner of Police- L & O Salem City	1
Deputy Commissioner of Police- L & O Trichy City	1
Deputy Commissioner of Police- L & O Tirunelveli City	1
Deputy Commissioner of Police- St. Thomas Mount, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- T. Nagar, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Anna Nagar, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Triplicane, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Adyar Chennai	1
Deputy Commissioner of Police-Pullianthope, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police-Washermen pet, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Traffic North Chennai	1
Deputy Commissioner of Police-Traffic South Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Flower Bazar, Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- (Hqrs.) Chennai	1
Deputy Commissioner of Police- Security-Chennai Police	1
Deputy Commissioner of Police- Int. Section Chennai	1
Superintendent of police-Special Br., CID Chennai	1
SP Crime Branch, CBCID-1, Chennai	1
Superintendent of police- Spl. Br., CID, Security-1, Chennai	1
SP, NIB, CID, Chennai	1
Superintendent of police- Civil Supplies, CID, Chennai	1
Superintendent of police- "Q" Br., CID Chennai	1
Superintendent of police-Security Br.-II CID, Chennai	1
Superintendent of police, Vigilance & Anti-Corruption, Western Range Chennai	1

	Superintendent of police, Vigilance & Anti-Corruption, Central Range Chennai	1
	Principal Police Training College , Chennai	1
	Commandants, TSP Battalions.	7
	Assistant Inspector General of Police, Administration., Chennai	1
	Assistant Inspector General of Police, Headquarters, Chennai	1
	Superintendent of police- Ariyalur	1
	Superintendent of police-Tiruppur	1
	Deputy Commissioner of Police- Mylapore	1
	Deputy Commissioner of Police, Traffic East, Chennai Police	1
	Superintendent of police- Railways Chennai	1
	Deputy Commissioner of Police, Traffic, West, Chennai Police	1
	Deputy Commissioner of Police-Kilpauk, Chennai Police, Chennai	1
	Deputy Commissioner of Police, Crime, Coimbatore City	1
	Deputy Commissioner of Police, Madhavaram, Chennai Police	1
	Deputy Commissioner of Police- Ambattur	1
	Assistant Inspector General of Police, Law & Order, Chennai Police,	1
	Deputy Commissioner of Police- Headquarters, Coimbatore City	1
	Deputy Commissioner of Police- Traffic, Coimbatore City	1
	Deputy Commissioner of Police- Headquarters, Madurai City	1
	Deputy Commissioner of Police-Traffic, Madurai City	1
<b>1</b>	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>150</b>
<b>2</b>	<b>Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above</b>	<b>60</b>
<b>3</b>	<b>State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above</b>	<b>05</b>
<b>5</b>	<b>Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 &amp; 4 above</b>	<b>84</b>
<b>7</b>	<b>Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)</b>	<b>192</b>
	<b>Total Authorized Strength</b>	<b>276</b>

[F. No. 11052/02/2018- AIS-II (A)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

**Note (1):** Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Tamil Nadu Cadre was 263.

**Note (2):** The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22<sup>nd</sup> October 1955. These were subsequently amended in respect of the Odisha Cadre by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR.No.	Date
1	350(E)	25.6.1975
2	1369	25.9.1976

3	252(E)	17.03.1979
4	895	06.09.1980
5	344(E)	20.04.1983
6	335	31.03.1984
7	1016	29.09.1984
8	446	04.06.1988
9	421	17.06.1989
10	884	02.12.1989
11	221	16.05.1992
12	396(E)	02.04.1994
13	500	08.10.1994
14	320(E)	31.03.1995
15	740(E)	31.12.1997
16	100(E)	27.02.1998
17	228	09.06.2000
18	3599(E)	11.05.2007
19	192(E)	24.03.2009
20	627(E)	23.07.2010

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1138(अ).**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-II,-

खंड क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के वेतन के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के पदों की तालिका में, प्रथम कॉलम में 'तमिलनाडु' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

### "तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद	
पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अध्यक्ष, टीएनयूएसआरबी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
पुलिस महानिदेशक/निदेशक, वीएंडएसी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, नागरिक आपूर्ति, सीआईडी चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

अपर पुलिस महानिदेशक, समाजिक न्याय एवं मानव अधिकार चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रवर्तन चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, सीआईडी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस महानिदेशक, तटीय सुरक्षा, समूह, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी चेन्नई पुलिस	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - उत्तरी जोन चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - दक्षिणी क्षेत्र, मदुरई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी जोन, कोयंबटूर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - केंद्रीय जोन, त्रिची	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - तकनीकी सेवा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशिक्षण, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - सशस्त्र पुलिस, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - सदस्य सचिव, टीएनयूएसआरबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - रेलवे	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - प्रशा., चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - मुख्यालय, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - ईओडब्ल्यू चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - वीएंडएसी, विशेष जांच सेल, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
संयुक्त निदेशक, वीएंडएसी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
अपर 'कॉप', दक्षिणी चेन्नई पुलिस	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना (आंतरिक सुरक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस आयुक्त, तिरुनेलवेल सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस आयुक्त, सलेम सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस आयुक्त, कोयंबटूर सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस आयुक्त, त्रिची सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
अपर पुलिस आयुक्त, ट्राफिक, चेन्नई सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, सीओपी, त्रिप्पुर सिटी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

उप पुलिस महानिरीक्षक – कंचीपुरम रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – वेल्लोर रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – कोयंबटूर रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – त्रिची रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – मदुरई रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – रामनाथपुरम रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – तिरुनेलवेली रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – विल्लुपुरम रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – तंजावुर रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – डिंडीगुल रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – सलेम रेंज	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
संयुक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिणी चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
संयुक्त पुलिस आयुक्त, उत्तरी चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी चेन्नई पुलिस	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, उत्तरी, चेन्नई पुलिस	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी आसूचना चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – सीबी सीआईडी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – प्रशासन, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – (मुख्यालय) चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – न्याय एवं मानव अधिकार, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – सशस्त्र पुलिस, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
पुलिस आयुक्त – मदुरई सिटी	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप निदेशक – सतर्कता एवं एंटी, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – तकनीकी सेवा चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे, चेन्नई	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क
उप महानिरीक्षक/जेसीओपी, कानून एवं व्यवस्था पश्चिम, जीसीपी,	वेतन मैट्रिक्स क में स्तर 13 क

(ख) खंड ख में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित, वेतन लेने वाले पदों में तमिलनाडु प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

पुलिस अधीक्षक – कांचीपुरम
पुलिस अधीक्षक – तिरुवलूर
पुलिस अधीक्षक – विल्लुपुरम
पुलिस अधीक्षक – कुडडलोर
पुलिस अधीक्षक – त्रिरुअन्नामलाई
पुलिस अधीक्षक – वेल्लोर

पुलिस अधीक्षक - सलेम
पुलिस अधीक्षक - नामाक्कल
पुलिस अधीक्षक - धारमपुरी
पुलिस अधीक्षक - कोयंबटूर
पुलिस अधीक्षक - ईरोडे
पुलिस अधीक्षक - दिनीलगिरी
पुलिस अधीक्षक - त्रिचरापल्ली
पुलिस अधीक्षक - पुदुकोटाई
पुलिस अधीक्षक - करूर
पुलिस अधीक्षक - पेराम्बुदुर
पुलिस अधीक्षक - तंजावुर
पुलिस अधीक्षक - नागापट्टिनम
पुलिस अधीक्षक - तिरुवरूर
पुलिस अधीक्षक - मदुरई
पुलिस अधीक्षक - विरूधुनगर
पुलिस अधीक्षक - डिंडीगुल
पुलिस अधीक्षक - थेनी
पुलिस अधीक्षक - रामानाथपुरम
पुलिस अधीक्षक - शिवागंगई
पुलिस अधीक्षक - तिरूनेलवेली
पुलिस अधीक्षक - तूथुकुडी
पुलिस अधीक्षक - कन्याकुमारी
पुलिस अधीक्षक - कृष्णागिरि
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था, मदुरई सिटी
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था कोयंबटूर सिटी
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था सलेम सिटी
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था त्रिची सिटी
उप पुलिस आयुक्त - कानून एवं व्यवस्था तिरूनेलवेली सिटी
उप पुलिस आयुक्त - सेंट थॉमस मार्केट, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - टी. नगर, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - अन्ना नगर, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - त्रिपलिकेन, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - अदयार चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - पुल्लिन्थोप, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - वाशरमैन पेट, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त - उत्तरी यातायात, चेन्नई

उप पुलिस आयुक्त – दक्षिणी यातायात, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त – फ्लावर बाजार, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त – (मुख्यालय) चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त – सुरक्षा-चेन्नई पुलिस
उप पुलिस आयुक्त – आंतरिक अनुभाग चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा, सीआईडी चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – सीबीसीआईडी-1, चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा, सीआईडी, सुरक्षा-1, चेन्नई
पुलिस अधीक्षक, एनआईवी, सीआईडी, चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – नागरिक आपूर्ति
पुलिस अधीक्षक – 'क्यू' शाखा, सीआईडी, चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – सुरक्षा शाखा-II, सीआईडी चेन्नई
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, पश्चिमी रेंज चेन्नई
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, केंद्रीय रेंज चेन्नई
प्रधान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, चेन्नई
कमांडेंट्स, टीएसपी बैटालियन
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, चेन्नई
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, चेन्नई
पुलिस अधीक्षक – आर्यालुर
पुलिस अधीक्षक – तिरुप्पुर
उप पुलिस आयुक्त – मिलापोर
उप पुलिस आयुक्त, पूर्वी यातायात, चेन्नई पुलिस
पुलिस अधीक्षक – रेलवे चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त, यातायात, पश्चिम, चेन्नई पुलिस
उप पुलिस आयुक्त – किलपौक, चेन्नई पुलिस, चेन्नई
उप पुलिस आयुक्त, अपराध, कोयंबटूर सिटी
उप पुलिस आयुक्त, माधवराम, चेन्नई पुलिस
उप पुलिस आयुक्त – अंबाटूर
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, चेन्नई पुलिस
उप पुलिस आयुक्त – मुख्यालय, कोयंबटूर सिटी
उप पुलिस आयुक्त – यातायात, कोयंबटूर सिटी
उप पुलिस आयुक्त – मुख्यालय, मदुराई सिटी

[फा. सं. 11052/02/2018-एआईएस-II (ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव



**टिप्पणी :** - प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 910(अ) दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. और संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्र.सं.	जीएसआर सं.	तारीख
1.	84(अ)	01.02.17
2.	82(अ)	01.02.17
3.	487(अ)	19.05.17
4.	646(अ)	27.06.17
5.	845(अ)	06.07.17
6.	1001(अ)	08.08.17
7.	1141(अ)	08.09.17
8.	1535(अ)	21.12.17
9.	1605(अ)	29.12.17
10.	198(अ)	28.02.2018
11.	1037(अ)	16.10.2018
12.	1041(अ)	18.10.2018

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

**G.S.R. 1138(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Tamil Nadu** hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, in schedule II,—

in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Tamil Nadu” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

#### “Tamil Nadu

Director General of Police, Tamil Nadu	Level 17 in Pay matrix
Chairman, TNUSRB, Chennai	Level 16 in Pay matrix
Director General of Police/Director, V&AC, Chennai	Level 16 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Intelligence	Level 15 in Pay matrix
Commissioner of Police, Greater Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Crime Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, EOW Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Civil Supplies, CID Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Social Justice & Human Rights, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police,, Law & Order, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Administration, Chennai	Level 15 in Pay matrix

Additional Director General of Police, Enforcement Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Headquarters, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Crime Branch, CID, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Armed Police, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Director General of Police, Coastal Security, Group, Chennai	Level 15 in Pay matrix
Additional Commissioner of Police, North Chennai Police	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police-North Zone Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police-South one, Madurai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, West Zone, Coimbatore	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Central Zone, Trichy	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Intelligence Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, Crime, Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police, CBCID, Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police-Technical Services	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Training Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Armed Police, Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Member Secretary, TNUSRB	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Railways	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Admn., Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- HQrs., Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police-EOW Chennai	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- V&AC, Special Investigation Cell, Chennai	Level 14 in Pay matrix
Joint Director, V&AC, Chennai	Level 14 in Pay matrix
Addl. COP, South Chennai Police	Level 14 in Pay matrix
Inspector General of Police- Intelligence (Internal Security)	Level 14 in Pay matrix
Commissioner of Police, Triunelveli City	Level 14 in Pay matrix
Commissioner of Police, Salem City	Level 14 in Pay matrix
Commissioner of Police, Coimbatore City	Level 14 in Pay matrix
Commissioner of Police, Trichy City	Level 14 in Pay matrix
Additional Commissioner of Police, Traffic, Chennai City	Level 14 in Pay matrix
IGP, COP, Trippur City	Level 14 in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Kancheepuram Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Vellore Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Koimbatore Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Trichy Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Madurai Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Ramanathapuram Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Tirunelveli Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Villupuram Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Thanjavur Range	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Dindigul Range	Level 13A in Pay matrix

Deputy Inspector General of Police- Salem Range	Level 13A in Pay matrix
Jt. Commissioner of Police, South Chennai	Level 13A in Pay matrix
Jt. Commissioner of Police, North Chennai	Level 13A in Pay matrix
Jt. Commissioner of Police, East, Chennai Police)	Level 13A in Pay matrix
Joint Commissioner of Police, Traffic, North, Chennai Police)	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- CID Intelligence Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- CB CID, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Administration, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-(HQrs.) Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Training, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Justice & Human Rights, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Armed Police, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Commissioner of Police-Madurai City	Level 13A in Pay matrix
Deputy Director-Vigilance & Anti, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police-Technical Services Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Railways, Chennai	Level 13A in Pay matrix
Deputy Inspector General/JCOP, Law & Order West, GCP	Level 13A in Pay matrix”

(b) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Tamil Nadu’ the following shall be substituted in the table,-

Superintendent of police- Kancheepuram
Superintendent of police- Thiruvallur
Superintendent of police- Villupuram
Superintendent of police- Cuddalore
Superintendent of police- Tiruvannamalai
Superintendent of police- Vellore
Superintendent of police- Salem
Superintendent of police- Namakkal
Superintendent of police- Dharampuri
Superintendent of police- Coimbatore
Superintendent of police- Erode
Superintendent of police- The Nilgiris
Superintendent of police- Tirucharapalli
Superintendent of police- Pudukottai
Superintendent of police- Karur
Superintendent of police- Perambalur
Superintendent of police- Thanjavur
Superintendent of police- Nagapattinam
Superintendent of police-Tiruvarur
Superintendent of police- Madurai
Superintendent of police- Virudhunagar
Superintendent of police- Dindigul

Superintendent of police- Theni
Superintendent of police- Ramanathapuram
Superintendent of police- Sivagangai
Superintendent of police- Tirunelveli
Superintendent of police- Toothukudi
Superintendent of police- Kanyakumari
Superintendent of police- Krishnagiri
Deputy Commissioner of Police- L & O Madurai City
Deputy Commissioner of Police- L & O Coimbatore City
Deputy Commissioner of Police- L & O Salem City
Deputy Commissioner of Police- L & O Trichy City
Deputy Commissioner of Police- L & O Tirunelveli City
Deputy Commissioner of Police- St. Thomas Mount, Chennai
Deputy Commissioner of Police- T. Nagar, Chennai
Deputy Commissioner of Police- Anna Nagar, Chennai
Deputy Commissioner of Police- Triplicane, Chennai
Deputy Commissioner of Police- Adyar Chennai
Deputy Commissioner of Police-Pullianthope, Chennai
Deputy Commissioner of Police-Washermen pet, Chennai
Deputy Commissioner of Police- Traffic North Chennai
Deputy Commissioner of Police-Traffic South Chennai
Deputy Commissioner of Police- Flower Bazar, Chennai
Deputy Commissioner of Police- (Hqrs.) Chennai
Deputy Commissioner of Police- Security-Chennai Police
Deputy Commissioner of Police- Int. Section Chennai
Superintendent of police-Special Br., CID Chennai
SP Crime Branch, CBCID-1, Chennai
Superintendent of police- Spl. Br., CID, Security-1, Chennai
SP, NIB, CID, Chennai)
Superintendent of police- Civil Supplies, CID, Chennai
Superintendent of police- "Q" Br., CID Chennai
Superintendent of police-Security Br.-II CID, Chennai
SP, Vigilance & Anti-Corruption, Western Range Chennai
SP, Vigilance & Anti-Corruption, Central Range Chennai
Principal Police Training College , Chennai
Commandants, TSP Battalions.
Assistant Inspector General of Police, Administration., Chennai
Assistant Inspector General of Police, Headquarters, Chennai
Superintendent of police- Ariyalur
Superintendent of police-Tiruppur
Deputy Commissioner of Police- Mylapore
Deputy Commissioner of Police, Traffic East, Chennai Police
Superintendent of police- Railways Chennai

Deputy Commissioner of Police, Traffic, West, Chennai Police
Deputy Commissioner of Police-Kilpauk, Chennai Police, Chennai
Deputy Commissioner of Police, Crime, Coimbatore City
Deputy Commissioner of Police, Madhavaram, Chennai Police
Deputy Commissioner of Police- Ambattur
Assistant Inspector General of Police, Law & Order, Chennai Police
Deputy Commissioner of Police- Headquarters, Coimbatore City
Deputy Commissioner of Police- Traffic, Coimbatore City
Deputy Commissioner of Police- Headquarters, Madurai City
Deputy Commissioner of Police-Traffic, Madurai City

[F. No. 11052/02/2018-AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 910(E) dated the 23<sup>th</sup> September, 2016.

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	84E	01.02.17
2.	82E	01.02.17
3.	487E	19.05.17
4.	646E	27.06.17
5.	845E	06.07.17
6.	1001E	08.08.17
7.	1141E	08.09.17
8.	1535E	21.12.17
9.	1605E	29.12.17
10.	198E	28.02.2018
11.	1037E	16.10.2018
12.	1041E	18.10.2018